

## 195292 - उसने पवित्रता की हालत में मोज़ा उतार दिया फिर दूसरा मोज़ा पहन लिया और वुजूकर उस पर मसह किया फिर नमाज़ पढ़ी तो क्या उसकी नमाज़ सहीह है?

### प्रश्न

मैं ने वुजू कर मोज़ा पहन लिया और इशा की नमाज़ पढ़ी। फिर मैं सुबह की नमाज़ के लिए जागा तो वुजू किया और मोज़े पर मसह किया, फिर सुबह की नमाज़ पढ़ी। अभी मेरा वुजू नहीं टूटा था। फिर मैंने मोज़ा बदल दिया ; ताकि घर वाले उसे धुल दें और दूसरा मोज़ा पहन लिया। फिर जुहर की नमाज़ का समय आया तो मैं ने वुजू किया और इस दूसरे मोज़े पर मसह किया जिसे मैं ने पहला मोज़ा उतारने के एक मिनट बाद पहना था जबकि मैं पवित्रता (वुजू) की हालत में था। तो क्या वुजू के सही होने की वजह से जुहर की नमाज़ सही है, या कि वुजू के अमान्य होने की वजह से वह अमान्य है?

### विस्तृत उत्तर

सर्व प्रथम :

यदि मनुष्य ने मोज़े या जुराब को उनपर मसह करने के बाद उतार दिया तो विद्वानों के कथनों में से सहीह कथन के अनुसार उसकी पवित्रता अमान्य (बातिल) नहीं होगी। और यह इसलिए कि जब आदमी ने मोज़े पर मसह किया तो शरई प्रमाण की अपेक्षा के अनुसार उसकी पवित्रता संपूर्ण हो गई। इस आधार पर उसका वुजू बाक़ी रहेगा।

इस बात का उल्लेख प्रश्न संख्या (26343) और (100112) के उत्तर में किया जा चुका है।

इसलिए उसके लिए अनुमेय है कि वह अपने पूर्व वुजू के द्वारा जितनी नमाज़ें चाहे पढ़ सकता है यहाँ तक कि वह अपवित्र हो जाए और वुजू तोड़ने वाली चीज़ों में से किसी चीज़ के द्वारा उसका वुजू टूट जाए। वुजू तोड़ने वाली चीज़ों का वर्णन प्रश्न संख्या (14321) के उत्तर में गुज़र चुका है।

दूसरा :

यदि मनुष्य कोई फर्ज़ नमाज़ पढ़ ले, फिर किसी दूसरी नमाज़ का समय हो जाए, और वह पवित्रता (वुजू) की हालत में हो तो उसके ऊपर (दुबारा) वुजू करना अनिवार्य नहीं है। बल्कि उसके लिए वुजू को नया करना मुसतहब (ऐच्छिक) है। और उसका पूर्व वुजू सही है, वह टूटा नहीं है। और वह व्यक्ति अपनी पवित्रता पर बाक़ी है।

इस अरधार पर :

जब आप ने अपना पहला मोज़ा उतार दिया था और आप अपनी पवित्रता पर बाक़ी थे, तो आपका पहला वुजू सही है और आप जबतक अपवित्र नहीं होते हैं, आप जितनी नमाज़ें चाहें पढ़ सकते हैं। जब आप ने इसके बाद दूसरा मोज़ा पहन लिया, फिर वुजू के नवीकरण के लिए उस पर मसह किया और जुहर की नमाज़ पढ़ी, तो दूसरे मोज़े पर मसह करना सही नहीं होगा, लेकिन आपकी नमाज़ सही है ; क्योंकि आपका पहला वुजू बाक़ी है, टूटा नहीं है और वुजू को नया करना पहले वुजू को निरस्त नहीं करता है। इसके बाद जब आपका वुजू टूट जाए तो आपके लिए अंतिम मोज़े को उतारना ज़रूरी होगा। फिर आप वुजू करेंगे और उसे दुबारा पहनने से पहले अपने पैरों को धुलेंगे।

तथा देखें : अल-मुग़नी (1/85), कश्शाफ़ुल क़िनाअ (1/86 - 87)